



BHAGAWATI GAS LIMITED

Website : www.bglgroup.in
E mail : bhagwatigases@gmail.com

S-492/A, GREATER KAILASH-I
NEW DELHI- 110048, INDIA
CIN - U24111RJ1974PLC005789

Phone: 91-11-49120719

Date: June 01, 2026

To,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
PJ Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai-400001

Ref: SECURITY CODE: 500051; SECURITY ID: BHAGGAS; ISIN INE099C01010

Dear Sir/ Ma'am,

Sub: Submission of Newspaper publication pertaining to audited financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2026

Pursuant to Regulation 47(3) of the S EBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements pertaining to the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2026, published on May 31, 2026 in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta Express (Vernacular Newspaper).

The above information is also hosted on the company's website at : <https://bglgroup.in/>

You are requested to kindly take the same on record.

Yours faithfully,
For Bhagawati Gas Limited

RAKESH SAMRAT BHARDWAJ
Managing Director
DIN: 00029757

Encl: As above

केनरा बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank

A Government of India Undertaking

Infotexture, SymplicatBank

RECOVERY SECTION, SOUTH DELHI REGIONAL OFFICE

1st Floor, DDA Building, Vardhaman Tower (Near Paras Cinema)

Nehru Place, Delhi- 110019 rosdelrec@canarabank.com

E-AUCTION

SALE NOTICE

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable / immovable property mortgaged/hypothecated charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Canara Bank., will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on below mentioned dates through E-Auction under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in provider <https://baanknet.com/> (M/s PSB Alliance Pvt. Ltd), (Contact No. 8291220220, Email:- Support.BAANKNET@psballiance.com) or Canara Bank's website www.canarabank.com, EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited in E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (<https://baanknet.com/>) portal directly or by generating the Challan therein to deposit the EMD through RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan.

Sr. No.	Name of the Branch Borrower / Guarantors / Mortgagor Name & Address	DETAILS OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTY AND STATUS OF POSSESSION	Total Dues	a. Reserve Price (Rs) b. EMD (Rs) c. Incremental Bid (Rs) d. Date of Notice	DATE & TIME OF AUCTION (with unlimited extensions of 5 minutes duration each) Last Date & Time of Submission of EMD	The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer & Contact Person
1	SPECIALIZED SME BRANCH DELHI OKHLA INDUSTRIAL ESTATE[00348] 1. REKHA SAINI (BORROWER) W/O SURENDER KUMAR 265 HARI NAGAR, ASHRAM JUNG PURA, S.O DELHI, DELHI 110014 2. SANCHITA HOM ROY (GUARANTOR) B 659 GHARCHOLI DAIRY FARM VASUNDHRA ENCLA, MAYUR VIHAR PHASE 3 DELHI 110096	TATA NEXON XZ+ 1.5 BS4 (2017) REG NO. DL3CCN2357 CH NO. MAT627162HLJ06359 E NO. 1.5CRAIL01JSYW17323 COLOR- VERMONT RED Under Physical possession	Rs 11,04,352.97 (Rupees Eleven Lakh Four Thousand Three Hundred and Fifty Two and Nine Seven Paise Only) as on 30.04.2026 and further interest at applicable rate along with expenses, other charges, etc.	a. 70,000.00 b. 7,000.00 c. 5,000.00 d. 27.05.2026	04.07.2026 between 12:30 P.M. to 01:30 PM 03.07.2026 up to 05.00 p.m.	01.07.2026 between 10:00 am to 5:00 pm. Sh. KRISHNA KUMAR J (Authorised Officer) Assistant General Manager and Sh. VINEETH ABY ABRAHAM , MOB. No. - 9819049577

Date : 27.05.2026, Place : New Delhi

Authorised Officer, Canara Bank

पंजाब नैशनल बैंक

...मरोसे का प्रतीक!

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

CIRCLE OFFICE : CO SAM RAMGANGA VIHAR

NEAR SALE TAX OFFICE, MORADABAD,

EMAIL: combsamd@pnb.bank.in

E-AUCTION

SALE NOTICE

Whereas under section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of financial assets and Enforcement of Security interest Act 2002, the Authorised officer has issued demand notice for recovery from Borrowers/guarantors/mortgagors (herein referred to as Borrowers). Further in exercise of powers conferred in the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002" the Authorised officer has taken the possession of the under mentioned assets which held as securities in respect of loan/credits facilities granted. Whereas sale of the secured assets is to be made through Public E-auction for recovery of the secured debts due to Punjab National Bank, the General Public is invited to bid either personally or by duly authorised agent.

Date of E-Auction : 16.06.2026, Times: 11:00 to 16:00

Sl. No.	Name of Branch/ A/c/Borrower/Guarantor	Description of Properties	A) Dt. of Notice issued u/s 13(2) B) Outstanding Amount (in Lacs) as per 13(2) C) Nature of Possession D) Bank Property ID	A) Reserve Price B) Earnest Money Deposit (EMD) C) Bid Increase Amount
1	Branch: Rampur Road Mohd Usman Zargar S/o Haji Yamin	All that part and parcel of property situated at: Vill- Mohammad Husainpur, Pargana and Distt- Moradabad (UP), registered in Bahi No- 01, Vol. No- 13051, Page No- 291, to 344 Sr No- 9465, Dated- 21.12.2020, Total area- 211.02 sq mtrs. In the Name of Usman Zargar S/o Haji Yamin Bounded By: - North: House of Haji Yameen, South : House of Najakat therefore fouse of Shareek, East: Rasta 12ft Wide, West : House of Dr. Najir.	A) 26.08.2022 B) 10.14 + Intt. rate and other Charges C) Symbolic Possession D) PUNBMBD2032	(A) Rs. 23.56 Lacs (B) Rs. 2.36 Lacs (C) Rs. 25,000/-
2	Branch: Ramnagar, Rampur Harish Kumar S/o Chhedha Lal	All that part and parcel of property situated at: Mohalla Kaysthan near Bajrangi Chouraha, Bilaspur Distt- Rampur, (U.P.), Registered in Bahi No- 01, Zild No.- 242, Page No- 165, to 166 Sr No- 184, Dated- 31.01.1985, Total area- 121.83 sq mtrs. Standing In the Name of Sh. Harish Kumar S/o Chhedha Lal.	A) 09.11.2023 B) 2.79 + Intt. rate and other Charges C) Symbolic Possession D) PUNBMBD2094	(A) Rs. 21.34 Lacs (B) Rs. 2.14 Lacs (C) Rs. 25,000/-
3	Branch: Rampur Road Moradabad Sachin	All that part and parcel of property situated at: E.W.S. House No. 13A/289 Sector 13 of Naya Moradabad Awasiya Yojna, City & Distt-Moradabad, UP, Registered in Bahi No- 01, Zild No.-13857, Page No- 355 to 370, SI No- 6951, Dated- 29.06.2022, Total area- 28.51sq mtrs. Standing In the Name of Sachin S/o Lekhray Singh & Babita W/o Sachin Bounded By: North 6.00 mtr wide Road, South Village, East Bhawan no-13A/288, West: Bhawan no-13A/290.	A) 27.05.2024 B) 10.53 + Intt. rate and other Charges C) Symbolic Possession D) PUNBMBD2155	(A) Rs. 9.28 Lacs (B) Rs. 0.93 Lacs (C) Rs. 10,000/-
4	Branch: Rampur Road Ramchandrar	All that part & parcel of Property Situated At: EWS House No-B-111, Sector-13 of Naya Moradabad Yojna City, Distt- Moradabad, UP, Registered in Bahi no-1, Zild No- 13464, Pages on- 393 to 408, Sr No-9773, dated- 24.09.2021, measuring area- 26.40sqmtr, In the Name of Ramchandrar S/o Tularam Walmiki & Santosh Balmiki W/o Ramchandrar. Bounded By: North: EWS House, South: Road 6.00 mtr Wide, East: EWS House No. 13B/110, West: EWS House No. 13B/112.	A) 18.02.2024 B) 12.36 + Intt. rate and other Charges C) Symbolic Possession D) PUNBMBD2192	(A) Rs. 12.72 Lacs (B) Rs. 1.28 Lacs (C) Rs. 25,000/-
5	Branch: IBB Roopwati	Residential Property Situated at Mauja-Majhola, Purana Gas Ghar, Part of Khasra No. 98, (Locality known as Laxmanpuri, Chidiyatola, Bhagwan Das Wali Gali), Moradabad (UP) Area-39.50 sq. mtrs., Registered in Bahi No. 01, Zild No. 2142, Pages 274-276, Serial No. 769, Dated 29.01.1985 (In the Name of Smt. Roopwati w/o Sh. Shiv Shankar), Bounded by: North: House of Sh. Nanhey, South: Shiv Mandir, East: Rasta Aam, West : House of Sh. Suraj.	A) 01.03.2025 B) 14.02 + Intt. rate and other Charges C) Symbolic Possession D) PUNBMBD2209	(A) Rs. 22.97 Lacs (B) Rs. 2.3 Lacs (C) Rs. 25,000/-

The statutory notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act 2002 is a 15 days Notice

Last Date of EMD: Before Auction Time

E-auction is being on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS and will be conducted "Online". The auction will be conducted through the Bank's approved web portal, <https://baanknet.com>, support.baanknet@psballiance.com. E-Auction web portal containing online e-auction, Declaration, General Terms and Condition of online auction sale are available on <https://baanknet.com>, support.baanknet@psballiance.com. To the best of knowledge and information of the authorized officer, there is no encumbrance on the Properties. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of properties put on auction and claim/rights/dues affecting the property, prior to submitting their bid, the E-auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank, the Property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank, the Authorized officer/Secured Creditor shall not be responsible in any way for third party claim/rights/dues, the sale shall be subject to rules/condition prescribed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002, the other terms and condition of e-auction are published in the website: <https://baanknet.com>, support.baanknet@psballiance.com.

The Borrower/Guarantor is hereby notified to return the above mentioned amount along with updated interest and ancillary charge to the Bank before the date of e-auction. Otherwise the property will be auctioned/sold and the balance dues, if any, will be recovered along with interest and cost. The highest bidder will have to deposit 15% of the bid/sale amount in the respective EMD Account immediately. If 15% of the amount is not deposited within the stipulated time, the earnest money will be forfeited and the property will be resold. The successful participant will have to deposit the balance 75% within 15 days from the date of confirmation of sale. If 75% of the amount is not deposited within the stipulated time, 25% will also be forfeited and no claim of the participant on the property will be admissible. For more details contact Circle Office- **Rajiv Kumar Sinha, Mob. Mo. 7044481471**

Date: 30.05.2026 Place: Moradabad Authorised Officer, Punjab National Bank

पंजाब नैशनल बैंक

.....मरोसे का प्रतीक!

pnb

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

ARMB East Delhi; Pocket-E, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110091,

Email: cs8075@pnb.bank.in, Ph.: 011-22779758, 22785289

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Lot. No	Name of the Branch Name of the Account Name & Addresses of the Borrower/Guarantors Account	Dt. Of Demand Notice u/s 13(2) of SARFAESI ACT 2002 Amount as per Demand Notice Possession Date u/s 13(4) of SARFAESI ACT 2002 Nature of Possession Symbolic/Physical/ Constructive	Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name [mortgagors of property(ies)]	RESERVE PRICE EMD (Last date of Deposit EMD) Bid Increase Amount	DATE / TIME OF E-AUCTION	Details of the encumbrances Known to the secured creditors Name & Contact No of Authorized Officer
1.	BO: ASAF ALI ROAD (012700) MR RAJENDRA SINGH , ADD: RZ/6K/11/563 KHASRA NO 650, REVENUE ESTATE, VILLAGE NASIRPUR, COLONY INDRA PARK, PALAM COLONY, DELHI 110045 MR RAJENDRA SINGH , ADD-RZ 137 STREET NO-2, FIRST FLOOR, KAILASH PURI EXTENSION, PALAM COLONY, NEW DELHI 110045 MR RAJENDER SINGH , ADD: A-2/192, NEW KONDLI, MAYUR VIHAR PHASE 3, DELHI-110095 MR RAJENDER SINGH , OFFICE ADDRESS: SILVER ZONE, RZ-26P/129, MANGAL BAZAR ROAD, INDRAPARK DELHI	04.09.2025 RS. 22.66 LAKHS + FURTHER INTEREST, OTHER CHARGES AND EXPENSES TILL THE DATE OF FULL AND FINAL PAYMENT 03.02.2026 SYMBOLIC	EM OF IP SITUATED AT RZ/6K/11/563, KHASRA NO 650, 3RD FLOOR WITH ROOF RIGHTS HAVING LAND AREA MEASURING 75 SQ YDS, REVENUE ESTATE, VILLAGE NASIRPUR COLONY INDRA PARK, PALAM COLONY, DELHI 110045	RS. 29.75 LAKH RS. 2.975 LAKH (16.06.2026) RS. 25,000/-	16.06.2026 11.00 AM TO 04.00 PM	NOT KNOWN Mr Subhash Chandra Jatav (M. NO.9121866087) AUTHORISED OFFICER ARMB EAST DELHI
2.	BO: RAJGARH, DELHI (042410) M/S R M MINERALS PVT LTD (BORROWER) ADD: 205-206, 2ND FLOOR PLOT NO. 14, (LSC) NEELKANTH CHAMBER II, SAINI ENCLAVE, DELHI-110092 ALSO AT: 129A MEHATPUR INDUSTRIAL AREA, DISTT. UNA, HIMACHAL PRADESH SH. MADAN MOHAN VERMA S/O SH. NATHI LAL VERMA (DIRECTOR/GUARANTOR) ADD: 303-304, KRIT PLAZA, 3RD FLOOR, A BLOCK (LSC), SURAJMAL VIHAR, DELHI-110092 ALSO AT: 138, 1ST FLOOR, HARGOVIND ENCLAVE, NEAR KARKARDOOMA METRO STATION, DELHI-110092 ALSO AT: 31, GUJRAT VIHAR, DELHI-110092 SMT. PRABHA VERMA W/O SH. MADAN MOHAN VERMA (DIRECTOR/GUARANTOR) ADD: 303-304, KRIT PLAZA, 3RD FLOOR, A BLOCK (LSC), SURAJMAL VIHAR, DELHI-110092 ALSO AT: 138, 1ST FLOOR, HARGOVIND ENCLAVE, NEAR KARKARDOOMA METRO STATION, DELHI-110092 ALSO AT: 31, GUJRAT VIHAR, DELHI-110092	06.06.2024 (RS. 21.28,27,606.72) FURTHER INTEREST, OTHER CHARGES AND EXPENSES TILL THE DATE OF FULL AND FINAL PAYMENT 21.08.2024 PHYSICAL	EM OF LEASE HOLD PROPERTY SITUATED AT 129-A INDUSTRIAL AREA MEHATPUR DISTRICT UNA, HIMACHAL PRADESH, MEASURING 4325 SQ METER, IN THE NAME OF M/S R M MINERALS PVT LTD WITH ALL PLANT AND MACHINERY (THERE IS RESTRICTION FOR SALE OF THE PROPERTY TO THE LANDLESS AND NON HIMACHALI)	RS. 205.21 LAKH RS. 20.5210 LAKH (16.06.2026) RS. 25,000/-	16.06.2026 11.00 AM TO 04.00 PM	NOT KNOWN MRS. RAJBALA PUNIA (M. NO.913609199) AUTHORISED OFFICER ARMB EAST DELHI
3.	BO: SURAJ MAL VIHAR & VASUNDHARA ENCLAVE, DELHI MS. NEHA DUBEY & SH. GAURAV RAJ (BORROWER) ADD: A-1/12, DLF DILSHAD EXTN-II, GHAZIABAD, UP, ALSO AT: HIG, FLAT NO G-1, GROUND FLOOR, PLOT NO. A-60, BLOCK-A, RESIDENTIAL COLONY DLF, DILSHAD EXTN-II, VILLAGE-BRAHMPUR URF BHOPURA, PARGANA- LONI, TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD, UP.	02.08.2017 RS.26.92 LAKH + FURTHER INTEREST, OTHER CHARGES AND EXPENSES TILL THE DATE OF FULL AND FINAL PAYMENT 21.04.2018 PHYSICAL	HIG, FLAT NO G-1, GROUND FLOOR (WITHOUT ROOF RIGHTS) HAVING SUPER COVERED AREA 65.03 SQ. MTRS, FREEHOLD RESIDENTIAL PLOT NO. A-60, BLOCK-A, RESIDENTIAL COLONY DLF, DILSHAD EXTN-II, VILLAGE-BRAHMPUR URF BHOPURA, PARGANA- LONI, TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD, UP. IN THE NAME OF SMT. NEHA DUBEY & SH GAURAV RAJ.	RS. 16.57 LAKH RS. 1.70 LAKH (16.06.2026) RS. 25000/-	16.06.2026 11.00 AM TO 04.00 PM	NOT KNOWN MRS. RAJBALA PUNIA (M. NO.913609199) AUTHORISED OFFICER ARMB EAST DELHI
4.	BO: GANDHI NAGAR-008510, M/S SHANTI TRADING COMPANY , PROP. RAMESH CHAND SHARMA (SINCE DECEASED) ADD: HOUSE NO 30, STREET NO 13, SAROJINI PARK, SHASTRI NAGAR, GANDHI NAGAR, EAST DELHI-110031 THROUGH LEGAL HEIRS 1.MRS. NEETU SHARMA W/O LATE SH RAMESH CHAND SHARMA , ADD: HOUSE NO 30, STREET NO 13, SAROJINI PARK, SHASTRI NAGAR, GANDHI NAGAR, EAST DELHI-110031 2.MR PRABHAT SHARMA S/O LATE SH RAMESH CHAND SHARMA , ADD: HOUSE NO 30, STREET NO 13, SAROJINI PARK, SHASTRI NAGAR, GANDHI NAGAR, EAST DELHI-110031 MR KAMAL SHARMA S/O SH GANGA PRASAD SHARMA (GUARANTOR) , ADD: HOUSE NO 30, STREET NO 13, SAROJINI PARK, SHASTRI NAGAR, GANDHI NAGAR, EAST DELHI-110031	31.10.2025 RS.31.86 LAKHS + FURTHER INTEREST, OTHER CHARGES AND EXPENSES TILL THE DATE OF FULL AND FINAL PAYMENT 23.07.2024 SYMBOLIC	PROPERTY BEARING NO 30, GF, L, SHAPE TWO SIDE OPEN, OUT OF RECT NO 39 KILLA NO 15, SITUATED AT ABADI OF SAROJINI PARK, SHASTRI NAGAR, VILLAGE- KHUREJI KHAS, ILLAKQA SHAHDARA, DELHI-110031 IN THE NAME OF MR RAMESH SHARMA S/O SH. GANGAPRASAD SHARMA.	RS. 28.00 LAKH RS. 2.80 LAKH (16.06.2026) RS. 25000/-	16.06.2026 11.00 AM TO 04.00 PM	NOT KNOWN Mr. Subhash Chandra Jatav (M.NO. 9121866087) AUTHORISED OFFICER ARMB EAST DELHI
5.	BO: PAHARGANJ, DELHI (013000) SMT. NEHA SONI W/O SH. RAM CHANDER SONI (BORROWER) ADD: 354, GALI CHANDI WALI, PAHARGANJ, NEW DELHI-110055. SH. RAM CHANDER SONI (BORROWER) ADD: 354, GALI CHANDI WALI, PAHARGANJ, NEW DELHI-110055.	05.06.2021 RS 27.44 LAKHS + FURTHER INTEREST, OTHER CHARGES AND EXPENSES TILL THE DATE OF FULL AND FINAL PAYMENT 01.10.2021 PHYSICAL	ENTIRE FIRST FLOOR OUT OF NORTHERN SIDE PORTION OF PROPERTY NO- XV/563/354 WHICH IS COMPRISING OF THREE ROOMS SET BUILT THEREIN, WITHOUT ITS ROOF RIGHTS, WITH PROPORTIONATE SHARE IN THE LAND THEREUNDER MEASURING 63.20 SQ. MTRS. ALONGWITH COMMON RIGHTS OF ENTRANCE, PASSAGE AND STAIRCASE, PROPERTY SITUATED AT GALI CHANDI WALI, MANTOLA, PAHARGANJ, NEW DELHI IN THE NAME OF SMT. NEHA SONI W/O SH RAM CHANDER SONI.	RS. 23.80 LAKH RS. 2.38 LAKH (16.06.2026) RS. 25000/-	16.06.2026 11.00 AM TO 04.00 PM	NOT KNOWN Mr. Subhash Chandra Jatav (M.NO. 9121866087) AUTHORISED OFFICER ARMB EAST DELHI
6.	BO: MAYUR VIHAR (440800) M/S SHREE AMARNATHJI EXIM PRIVATE LIMITED (BORROWER) ADD: G-24, VARDHMAN MARKET, VIGYAN VIHAR, DELHI-110092. ALSO, AT: 90, PRAKASH INDUSTRIAL ESTATE, GHAZIABAD, UP- 201005 ALSO AT: 13, 2ND FLOOR, RISHAB VIHAR, DELHI-110092. SMT. SHILPI JAIN ADD: 13, 2ND FLOOR, RISHAB VIHAR, DELHI-110092. SH. PRAVEEN KUMAR JAIN ADD: 13, 2ND FLOOR, RISHAB VIHAR, DELHI-110092. SH. ARUN KUMAR BANSAL S/O SH. PRAKASH CHAND BANSAL ADD: A-11, PANCHSHEEL GARDEN, NAVEEN SHAHDARA, DELHI-110032. ALSO, AT: 1049/A, LOHIYA GALI NO.5, EAST BABARPUR, SHAHDARA, DELHI-110032	12.07.2017 RS. 403.98 LAKHS + FURTHER INTEREST, OTHER CHARGES AND EXPENSES TILL THE DATE OF FULL AND FINAL PAYMENT 18.09.2017 PHYSICAL	RESIDENTIAL PROPERTY BASEMENT, B-5 VIVEK VIHAR, DELHI MEASURING AREA 646.200 SQ METER, HAVING ITS PLINTH/COVERED AREA 358.692 SQ METERS IN THE NAME OF MRS. SHILPI JAIN	RS. 459.45 LAKH RS. 45.95 LAKH (16.06.2026) RS. 50000/-	16.06.2026 11.00 AM TO 04.00 PM	NOT KNOWN MRS RAJ BAL PUNIA (M. NO.9013609199) AUTHORISED OFFICER ARMB EAST DELHI

TERMS AND CONDITIONS : The Sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: 1. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and **WHATEVER THERE IS BASIS. 2.** The particulars of Secured Assets Specified in the Schedule here in above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission on the proclamation. 3. The Sale will be done by the undersigned online, through e-auction platform provided at the Website <https://baanknet.com> 4. For detail term and conditions of the sale, please refer <https://baanknet.com> & www.pnb.bank.in 5. All statutory dues/ attendant charges/ other dues including registration charges, stamp duty, Tax/ Any Authority charges etc shall have to be born by the purchaser and Authorised Officer or the bank shall not be responsible for any charges, lien in encumbrance are any other dues to govt or any one else in respect of Property (e-auctioned) not known to the bank the intending bidder is advised to make take on independent inquiries regarding the encumbrance on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity dues etc.

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

DATE: 30.05.2026, PLACE: NEW DELHI

AUTHORIZED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK

यूनियन बैंक

भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India

A Government of India Undertaking

SECTOR 7, FARIDABAD Branch,

SCO 39, Sector Huda Market Sector 7 A Faridabad Haryana

E mail ID: ubin0545112@unionbankofindia.bank.in

APPENDIX IV - POSSESSION NOTICE

(Rule - 8 (1)) (For immovable property)

Whereas the undersigned being the authorised officer of Union Bank of India, FARIDABAD SECTOR-7 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest (Second) Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 21.11.2025 calling upon the Borrower **Mr. BUNDU KHAN, Mr. Amir Khan and Mrs. Babli Begum**, (The Guarantor) **Mrs. Renu Kumari** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 651825.00 (Rupees Six Lakh Fifty One Thousand Eight Hundred Twenty Five only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 27th day of May 2026.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **UNION BANK OF INDIA** for an amount **Rs.5,47,200.53** and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

Description of Immovable Property

All that part of the property consisting of House No 2/ MCF No 73 East of Kishan Sahai Sarpanch Market Sector 91 Sehampur, Sehampur Road Faridabad Haryana admeasuring 60 Sq Yards in the name of Mrs Babli Begum Bounded: On the North by - House no 3, On the South by - House no 1 On the East by - Other Property, On the West by - Wide Gali

Date: 27.05.2026, Place: Faridabad Authorised Officer, Union Bank of India

BHAGAWATI GAS LIMITED

Registered Office: Banwas, Khetri Nagar-333504, Dist.-Jhunjhunu, Rajasthan

Corporate Office: S-492/A, Greater Kailash-I, New Delhi-110048 E-Mail ID: bhagwatgases@gmail.com ; CIN: U24111RJ1974PLC005789 Website: www.bglgroup.in Ph. No. : 91-11-49120719

Extract of Statement of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2026
(₹ in Lacs except figures of EPS)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Year Ended	
		31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income from operations	206.78	37.07	279.29	435.62
2.	Net profit/(Loss) for the period before tax (after depreciation, Exceptional and/or Extraordinary items)	150.64	(63.66)	74.73	88.08
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	174.99	(137.50)	99.08	14.24
4.	Total comprehensive income for the period (Comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	177.56	(132.42)	101.65	17.31
5.	Paid up Equity Share Capital (face value Rs. 10/- each)	1,674.25	1,674.25	1,674.25	1,674.25
6.	Reserve excluding revaluation reserves	-	-	(103.58)	(205.23)
7.	Earnings per share (EPS): 1. Basic; 2. Diluted;	1.06	(0.80)	0.61	0.10

Notes:

01. The above Financial results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2026 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director in their respective meetings held on Saturday, May 30, 2026 and the Statutory Auditors of the Company have carried out the audit of the aforesaid Results.

02. The above extract of the detailed format of financial results for the Quarter and year ended March 31, 2026 filled with the stock exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) regulations 2015. The full format of financial results are available on the website of the company i.e. www.bglgroup.in.

03. The figures for the quarter ended 31 March 2026 and 31 March 2025 are balancing figures between audited figures for the financial year ended March 31, 2026 and March 31, 2025 and published year to date figures upto Fourth quarter of the respective financial year.

04. There is no impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items is due to changes in accounting policies for the quarter and year ended March 31, 2026.

05. Figures of the previous year/periods have been regrouped and/or reclassified whenever considered necessary.

Place: New Delhi
Date: 30.05.2026



For Bhagawati Gas Limited Sd/-
Rakesh Samrat Bhardwaj
(Managing Director)
DIN: 00029757

epaper.financialexpress.com

New Delhi

दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: अहलुवालिया चैम्बर्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. 16 एवं 17, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, मदनगौर, पुष्पा भवन के पास, नई दिल्ली-110062 वेबसाइट: www.deepakbuilders.co.in
CIN: L45309DL2017PLC323467

31.03.2026 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडालॉन वित्तीय परिणाम का सार

(लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही				
		31.03.2026 (अंकेक्षित)	31.12.2025 (अनंकेक्षित)	31.03.2025 (अंकेक्षित)	31.03.2026 (अंकेक्षित)	31.03.2025 (अंकेक्षित)
1	परिचालन से कुल आय/राजस्व	23812.11	16774.72	22591.82	55992.48	58665.21
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, विशेष और/या असाधारण मदों से पहले)	1989.83	716.01	1655.71	5378.04	8103.79
3	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	1989.83	716.01	1655.71	5378.04	8103.79
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	1451.31	516.65	1119.79	3965.21	5674.98
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद की अवधि के लिए लाभ और कर के बाद अन्य व्यापक आय को मिलाकर)	-5.49	-15.98	-7.42	-57.50	-63.07
6	भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/-)	4655.09	4658.09	4658.09	4658.09	4658.09
7	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व (जैसा कि पिछले/पूरे साल के अंत में बैलेंस शीट में दिखाया गया है)	39500.42	38047.25	39026.80	39500.42	36026.80
8	प्रति शेयर आय (जारी और बंद परिचालन के लिए) - मूल और तुल्य	3.10	1.11	2.40	8.51	14.04

नोट: उपरोक्त 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया है। तिमाही/वर्ष समाप्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है। यह कंपनी की वेबसाइट www.deepakbuilders.co.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता/-

दीपक कुमार सिंगल

अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 01562688)

दिनांक : 30.05.2026

स्थान : लुधियाना

AJANTA

Regd. Office & Works : SP-916, Phase - III, Industrial Area, Bhiwadi - 301019, Rajasthan, India
Tel. : 911-6176727, 911-6128880
Corp. Office : 12th Floor, Biggo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110034
Phone : 011-42515151; Fax : 011-42515100
WEBSITE- www.ajantasoya.com, Email - cs@ajantasoya.com

Extract of Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2026

(Rs. in Lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Standalone				
		Quarter ended		Year ended		
		31.03.2026 Audited	31.12.2025 Un-Audited	31.03.2025 Audited	31.03.2026 Audited	31.03.2025 Audited
1.	Total Income from operations	33,691.52	31,174.82	38,839.35	1,30,767.05	1,32,981.12
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(99.84)	325.43	659.00	1,206.79	3,631.73
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(99.84)	325.43	659.00	1,206.79	3,631.73
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(119.09)	251.88	501.89	837.53	2,714.56
5.	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	(44.85)	248.50	524.36	913.37	2,814.24
6.	Equity Share Capital	1609.66	1609.66	1,609.66	1609.66	1,609.66
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	15,187.84 (as on 31.03.2026)	14,274.47 (as on 31.03.2025)	14,274.47 (as on 31.03.2025)	15,187.84 (as on 31.03.2026)	14,274.47 (as on 31.03.2025)
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic: Diluted:	(0.15) (0.15)	0.31 0.31	0.62 0.62	1.04 1.04	3.37 3.37

नोट:

This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filled with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2026 are available on the Stock Exchange websites: www.bseindia.com and on Company's website www.ajantasoya.com, the Company's webpage (<https://ajantasoya.com/financial-results-2/>).

The above results were reviewed by the Audit Committee, and thereafter approved by the Board of Directors in their meetings held on 30th May, 2026.

Previous year periods figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

On behalf of the Board

For Ajanta Soya Limited

Sd/-

Sushil Kumar Goyal

Managing Director

(DIN: 00125275)

Place: New Delhi

Date: 30th May, 2026

TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

CIN: L74110DL1995PLC064237
Regd. Off: S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP. POCKET-I, MAYUR VIHAR-I, DELHI -110091
Tel.: 011-22755819 | Email Id: info@brandrealty.in | Website: <https://www.brandrealty.in>

Statement of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter & Year ended 31st March, 2026

(Rs. in Lacs except per share data)

Particulars	Quarter ended			Year Ended	
	31.03.2026 (Audited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2026 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
Total Income from Operations	90.32	128.75	122.58	520.28	943.67
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(33.43)	(11.38)	2.74	88.62	(95.25)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(33.43)	(11.38)	2.74	88.62	(95.25)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(53.89)	13.00	72.37	127.22	(37.58)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(53.34)	13.00	55.47	127.77	(54.48)
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44	300.44	300.44
Other Equity Excluding Revaluation Reserves	0	0	0	0	0
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic : Diluted:	(1.79) (1.79)	0.43 0.43	2.41 2.41	4.23 4.23	(1.25) (1.25)

नोट:

1. The above is an extract of the detailed format of the audited Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2026 filed with the BSE under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended 31st March, 2026 is available on the BSE website (www.bseindia.com) and Company's website (<https://www.brandrealty.in>).

2. The above audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30th May, 2026.

3. Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares:
Notice is hereby given to Shareholders that in terms of SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated 30th January, 2026, a Special Window has been opened for a period of one year from 5th February, 2026 to 4th February, 2027, to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares. The detailed notice regarding the Special Window is available on the Company's website, <https://www.brandrealty.in/investor-relations.html>, under the "Notices" section.

For TRADEWELL HOLDINGS LIMITED

Sd/-

KAMAL MANCHANDA

(WHOLETIME DIRECTOR)

DIN: 00027889

Place: Delhi

Date: 30.05.2026

न्यू लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: जीओ-29, वेस्टमेंट, शिवाजी एम्प्लेक्स, राजा गार्डन, नई दिल्ली, दिल्ली 110027.
सीआईएन संख्या: L27501DL1995PLC064005 ईमेल: secretarial@newlightindustries.com

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

लाख रुपये में

क्र.सं.	विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
		लेखापरीक्षित 31.03.2026	अलेखापरीक्षित 31.12.2025	लेखापरीक्षित 31.03.2025	लेखापरीक्षित 31.03.2026
1	कुल आय	144.80	138.99	336.94	732.93
2	कुल व्यय	121.42	137.11	327.32	676.64
3	अवधि का शुद्ध लाभ (कर, अपवाद और/या असाधारण मदों से पहले)	22.98	1.88	9.62	99.29
4	कर और अपवाद और / या असाधारण मदों के बाद अवधि का शुद्ध लाभ	8.57	2.12	22.33	42.12
5	कर के बाद कुल व्यापक आय	8.57	2.12	22.33	42.12
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य : रुपये)	876.00	876.00	876.00	876.00
7	प्रति शेयर आय (निरंतर और बंद किए गए संचालन के लिए) 1. मूल 2. तुल्य	0.010 0.010	0.002 0.002	0.025 0.025	0.048 0.048

टिप्पणी:

1. ये वित्तीय परिणाम एसईआईआई (लिरिंटिड दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को साथ दाखिल किए गए हैं। विस्तृत वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं। ये कंपनी की वेबसाइट: <https://newlightindustries.com/> पर भी उपलब्ध हैं।

2. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2026 को आयोजित बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया है।

3. ये परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक), नियम 2015 (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

4. कंपनी के संचालन को एक ही व्यावसायिक उत्पाद माना जाता है। खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

न्यू लाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

(पूर्व में न्यू लाइट अपरेटल लिमिटेड)

हस्ताक्षर / -

सीएस अग्रवाल

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 08592085

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 मई, 2026

अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पता: एस-524, एफ/एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, शकपुर, दिल्ली -110092
सीआईएन: L65100DL1984PLC018748 ईमेल: abhinavleasefinltd@gmail.com
वेबसाइट: abhinavleasefinltd@gmail.com फोन: 011-40196641

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

(आंकड़े लाखों में, ₹एस को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही				
		31.03.2026 लेखापरीक्षित	31.12.2025 अलेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित	31.03.2026 लेखापरीक्षित	31.03.2025 लेखापरीक्षित
1	कुल राजस्व (परिचालन + अन्य आय)	205.69	92.96	285.60	655.45	3,931.54
2	कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादित/असाधारण मदों से पूर्व)	(6.38)	17.22	(18.99)	91.15	29.20
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित/असाधारण मदों के परभाव)	(6.38)	17.22	(18.99)	91.15	29.20
4	कर परभाव अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित/असाधारण मदों के परभाव)	(31.60)	17.22	(25.19)	65.93	23.01
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ/हानि (कर परभाव) तथा अन्य व्यापक आय (कर परभाव) शामिल)	-	-	-	-	-
6	इक्विटी शेयर पूंजी	499.80	499.80	499.80	499.80	499.80
7	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि तब वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित है	-	-	-	-	-
8	आप प्रति शेयर (₹. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	-	-	-	-	-
i	बैसिक	(0.06)	0.03	(0.06)	0.13	0.06
ii	डायल्यूटेड	(0.06)	0.03	(0.06)	0.13	0.06

टिप्पणियाँ: 1. 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का लेखापरीक्षित मेसर्स जीएफएसएस एंड एसएसआईएस एप्लैपनी, वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है और उन्होंने एक योग्य राय व्यक्त की है। योग्यता 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुष्टि करने के लिए कंपनी द्वारा लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग से संबंधित है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (पॉडट लॉग) सुविधा को निर्बाध करने की सुविधा नहीं है और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रसंगिक लेनदेन के लिए पूर्ण रूप से संश्लिष्ट किया गया है। योग्यता के प्रभाव का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्गार है। वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप क्यूआर कोड के साथ प्रकटीकरण आवश्यकताओं की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.jollyplasticindustriestd.in पर उपलब्ध है।

अभिनव लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

ममता अग्रवाल

(प्रबंध निदेशक)

दिनांक: 30 मई 2026

स्थान: दिल्ली

भगवती गैस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बनवाल, खेजी नगर- 333504, जगन्पट - बुधपुर, राजस्थान
निवेष्टित कार्यालय : एस-492/ए, गेट कैलाश-I, नई दिल्ली- 110048 ईमेल आईडी : bhagwatigas@gmail.com,
सीआईएन : U24111RJ1974PLC005789, वेबसाइट : www.bglgroup.in, दूरभाष नं: 91-11-49120719

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

(₹ लाख में, ₹एस को छोड़कर)

क्र.सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
		31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.12.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	200.76	37.07	278.29	435.62
2	कर पूर्व अवधि का निवल लाभ / (हानि) (हारा, कर, अपवादित/असाधारण मदों के परभाव)	150.64	(63.66)	74.73	88.08
3	कर परभाव अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आवधिक लाभ/अवधा असाधारण मदों के परभाव)	174.99	(137.50)	99.08	14.24
4	अवधि की कुल व्यापक आय अवधि का लाभ / (हानि) (कर परभाव) तथा अन्य व्यापक आय (कर परभाव) से समाहित	177.56	(132.42)	101.65	17.31
5	प्रदत्त समता अंश पूंजी (₹. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	1,674.25	1,674.25	1,674.25	1,674.25
6	आरक्षित, पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों छोड़कर	-	-	(103.58)	(205.23)
7	आप प्रति अंश (ईपीएस) : 1. मूल 2. तरलीकृत :	-	-	0.61	0.10

टिप्पणियाँ :

01. दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के कंपनी के उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा शनिवार 30 मई 2026 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया तथा कंपनी के सांख्यिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त परिणामों का लेखापरीक्षण किया है।

02. उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवारी 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट www.bglgroup.in पर उपलब्ध है।

03. दिनांक 31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के ऑडिट 31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा संबंधित वित्तीय वर्ष की चर्चा तिमाही तक के प्रकाशित वर्ष-वर्ष एवं ऑडिट के अध्व के संतुलनकारी ऑडिट है।

04. दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष की लेखांकन नीतियों में बदलाव के कारण शुद्ध लाभ/हानि, कुल व्यापक आय या किसी अन्य प्रासंगिक वित्तीय मद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

05. पूर्ववर्ती वर्ष/अवधियों के ऑडिटों को जब भी आवश्यक समझा गया है, पुनर्समूहित तथा/या पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते भगवती गैस लिमिटेड

हस्ता/-

राकेश सहाट भागुल

(प्रबंध निदेशक)

डीआईएन: 00029757

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30-05-2026

FIEM

LIGHT UP THE WORLD

EXTRACT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2026

(Rs. in Lakhs)

SN	Particulars	CONSOLIDATED				
		QUARTER ENDED		YEAR ENDED		
		31.03.26 (Audited)	31.12.25 (Unaudited)	31.03.25 (Audited)	31.03.26 (Audited)	31.03.25 (Audited)
1	Total Revenue from operations (net)	75,125.25	69,007.15	63,942.43	2,81,560.87	2,42,261.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	9,464.36	8,418.27	7,357.08	34,142.85	27,250.85
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	9,464.36	8,418.27	7,732.03	34,142.85	27,625.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	7,102.88	6,336.68	5,884.64	25,558.44	20,492.00
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,051.79	6,392.97	5,837.85	25,466.79	20,346.50
6	Equity Share Capital	2,631.97	2,631.97	2,631.97	2,631.97	2,631.97
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	1,18,869.17	1,01,187.08
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) 1. Basic: 2. Diluted:	26.99 26.99	24.08 24.08	22.36 22.36	97.11 97.11	77.86 77.86

नोट:

a) Key Information on Standalone financial result are as under :-

SN	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED		
		31.03.26 (Audited)	31.12.25 (Unaudited)	31.03.25 (Audited)	31.03.26 (Audited)	31.03.25 (Audited)
1	Total Revenue from operations (net)	75,097.98	69,001.48	63,907.41	2,81,410.77	2,42,220.02
2	Profit / (Loss) before tax	9,421.77	8,426.64	7,586.24	33,927.87	27,515.36
3	Net Profit / (Loss) after tax	7,058.57	6,345.42	5,769.42	25,387.76	20,413.80

b) The above is an extract of the detailed format of Financial Results of the Quarter and Year ended March 31, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results of the Quarter and Year ended March 31, 2026 are available on the website of the Company (www.fiemindustries.com) and website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

By order of the Board

For FIEM INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

J.K. Jain

Chairman & Managing Director

DIN-00013356

Place: Gurugram

Dated: May 30, 2026

FIEM INDUSTRIES LTD.

Regd. Office : Unit No. 1A & 1C, First Floor, Commercial Towers, Hotel JW Marriott, Aerocity, New Delhi-110037. Tel. : +91-5821795327/28/29/30. E-mail : fiem.aerocity@fiemindustries.com
Website : <http://www.fiemindustries.com> CIN : L36990DL1989PLC034928

एकम लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नंबर 11, रानी झांसी रोड, (मोतिया खान), एम.एम. रोड, नई दिल्ली -110055
सीआईएन- L74899DL1993PLC055697,
ईमेल आईडी: ekam.leasing1@gmail.in, info@ekamleasing.in
वेबसाइट: www.ekamleasing.in

31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और समेकित लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों ("वित्तीय परिणाम") की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा
--